

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनात्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राज्यपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई 2010—आषाढ़ 18, शक 1932

---

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

---

कुछ नहीं